

## भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड सचिवालय

सेक्टर 19-बी, मध्य मार्ग, चण्डीगढ़-160 019

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 21.09.2010

**विषय:** बीबीएमबी ने एचआर उत्कृष्टता में दो गोल्ड अवार्ड प्राप्त किए

ग्रीनटेक फाऊंडेशन, वर्ष 1999 में केलिफोर्निया, यूएसए और नई दिल्ली (भारत) में स्थापित एक नॉन प्रोफिट संगठन है जो पर्यावरणीय प्रबंध, अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु सम्मानित करने के लिए वचनबद्ध है। फाऊंडेशन ने पहली बार एचआर एक्सेलेंस अवार्ड समारोह का आयोजन किया है। इस अवार्ड ने समस्त विश्व में एचआर के स्पैक्ट्रम को विस्तृत आकार दिया है और ये केवल इन क्षेत्रों में विशिष्ट एचीवर्स को ही प्रदान किए गए हैं।

बीबीएमबी ने अपने अध्यक्ष, श्री ए.बी. अग्रवाल के कुशल नेतृत्व के अधीन प्रशिक्षण उत्कृष्टता श्रेणी और उत्तम कार्यनीति श्रेणी में कारपोरेट ग्रीनटेक एचआर उत्कृष्टता गोल्ड अवार्ड्स- 2010 जीते हैं। अध्यक्ष, बीबीएमबी के इनोवेटिव और समृद्ध एचआर अनुभव के कारण बीबीएमबी की ओर से इंजी. जी.एस. वासन, निदेशक, एचआरडी और इंजी. बी.एस. सभरवाल, संयुक्त सचिव, एचआरडी, बीबीएमबी, चण्डीगढ़ ने अवार्ड्स प्राप्त किए। इस प्रक्रिया में बीबीएमबी में एचआर कार्यों के विवरण के साथ पेपरों के नामांकन का प्रस्तुतीकरण, निजी साक्षात्कार/प्रस्तुति करना शामिल है जिसका अंतिम चयन प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट कम्पनियों के एचआर क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर के चार प्रसिद्ध जर्जों के एक पैनल द्वारा आकलन करने उपरान्त किया जाता है। पुरस्कार वितरण समारोह का गोआ में दिनांक 17.09.2010 को आयोजन किया गया। यह अवार्ड श्री भास्कर चटर्जी, आई.ए.एस., माननीय सचिव, भारत सरकार, हैवी इन्डस्ट्रीज एवं पब्लिक एन्टरप्राइजिज ने प्रदान किया।

बीबीएमबी टीम का विभिन्न प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर कम्पनियां और भारत सरकार के उद्यमों की 103 भागीदार टीमों में से चयन किया गया है। ग्रीनटेक फाऊंडेशन अवार्ड कारपोरेट विश्व में अत्यधिक प्रशंसनीय और शीर्ष अवार्ड माना गया है।